



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2007/फाल्गुन 30, 1928

No. 295]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2007/PHALGUNA 30, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

का.आ. 403(अ).—जबकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत 21 फरवरी, 2007 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 259(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने युनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित गौर ग्रामीण बैंक, मालाभूम ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, नदिया ग्रामीण बैंक और सागर ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सम्मेलन करके एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामतः “बंगिया ग्रामीण विकास बैंक”, जिसका प्रधान कार्यालय “बहरामपुर (मुर्शिदाबाद)” में होगा, अधिसूचित किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निदेश देती है कि 21 फरवरी, 2007 से गौर ग्रामीण बैंक, मालाभूम ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, नदिया ग्रामीण बैंक और सागर ग्रामीण बैंक, जो सम्मेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, भंग हुए माने जाएंगे और यह उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1/4/2006-आरआरबी(i)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2007

S.O. 403(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division, number S.O. 259(E) dated 21st February, 2007, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Gaur

(1)

Gramin Bank, Mallabhum Gramin Bank, Murshidabad Gramin Bank, Nadia Gramin Bank and Sagar Gramin Bank (Regional Rural Banks) sponsored by United Bank of India into a single Regional Rural Bank called as "Bangiya Gramin Vikash Bank" with its Head Office at Berhampur (Murshidabad).

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 21st February, 2007, Gaur Gramin Bank, Mallabhum Gramin Bank, Murshidabad Gramin Bank, Nadia Gramin Bank and Sagar Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1/4/2006-RRB(ii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

**का.आ. 404(अ).—**जबकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत 26 फरवरी, 2007 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 288(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यूको बैंक द्वारा प्रायोजित हावड़ा ग्रामीण बैंक, बर्धमान ग्रामीण बैंक और मयुराक्षी ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सम्मेलन करके एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामतः "पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक", जिसका प्रधान कार्यालय "हावड़ा" में होगा, अधिसूचित किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निदेश देती है कि 26 फरवरी, 2007 से हावड़ा ग्रामीण बैंक, बर्धमान ग्रामीण बैंक और मयुराक्षी ग्रामीण बैंक, जो सम्मेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, भंग हुए माने जाएंगे और यह उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह प्रभावी होगा।

[का. सं. 1/4/2006-आरआरबी(ii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2007

**S.O. 404(E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division, number S.O. 288(E) dated 26th February, 2007, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Howrah Gramin Bank, Bardhaman Gramin Bank and Mayurakshi Gramin Bank (Regional Rural Banks) sponsored by UCO Bank into a single Regional Rural Bank called as "Paschim Banga Gramin Bank" with its Head Office at Howrah.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 26th February, 2007, Howrah Gramin Bank, Bardhaman Gramin Bank and Mayurakshi Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1/4/2006-RRB(ii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.